

भारत में गुप्त नगिरानी: चर्चा और चुनौतियाँ

यह एडिटरियल 20/07/2021 को 'द हट्टि' में प्रकाशित "Surveillance reform is the need of the hour" लेख पर आधारित है। यह भारत में नगिरानी व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करता है।

संदर्भ

'पेगासस प्रोजेक्ट' (Pegasus Project) के अनुसार 300 से भी अधिक सत्यापित भारतीय मोबाइल टेलीफोन नंबरों—जिनमें मंत्रियों, वपिक्षी नेताओं, पत्रकार, वधिकि समुदाय, व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों, वैज्ञानिकों, अधिकार कार्यकर्त्ताओं और अन्य लोगों द्वारा इस्तेमाल किये जाते नंबर शामिल हैं—को इज़रायली कंपनी 'एनएसओ ग्रुप' (NSO Group) द्वारा निर्मित स्पाइवेयर का उपयोग कर नशाना बनाया गया है।

भारत में सरकार मौजूदा कानूनों के दायरे में **गुप्त नगिरानी (Surveillance)** कर सकती है जो ऐसी नगिरानी के लिये दण्ड से मुक्तिका प्रावधान रखते हैं। यद्यपि नगिरानी व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दे भी वदियमान हैं।

भारत में नगिरानी के प्रावधान

- नगिरानी के लिये भारत सरकार वर्ष 1885 के **भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (Indian Telegraph Act)** और वर्ष 2000 के **सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम (Information Technology Act)** के तहत प्रदत्त कानूनी प्रावधानों का सहारा लेती है।
- ये प्रावधान समस्यग्रस्त हैं और सरकार को इसके अवरोधन और नगिरानी गतिविधियों के संबंध में पूरी अपारदर्शिता बरतने का अवसर प्रदान करते हैं।
- टेलीग्राफ अधिनियम के प्रावधान टेलीफोन पर बातचीत और आईटी अधिनियम के प्रावधान कंप्यूटर संसाधन का उपयोग कर किये जाने वाले सभी संचारों पर लागू होते हैं।
- आईटी अधिनियम की धारा 69 और वर्ष 2009 के अवरोधन नियम (Interception Rules of 2009) टेलीग्राफ अधिनियम से भी अधिक अपारदर्शी हैं और नगिरानी किये जाते लोगों को बेहद कम सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- हालाँकि, कोई भी प्रावधान सरकार को किसी भी व्यक्ति के फोन को हैक करने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि मोबाइल फोन और एप सहित कंप्यूटर संसाधनों को हैक करना आईटी अधिनियम के तहत एक अपराधिक कृत्य माना गया है।
- बहरहाल, नगिरानी स्वयं में—चाहे वह कानून के प्रावधान के तहत की जा रही हो या इसके बिना—नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

नगिरानी के प्रभाव

- **प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा:** नगिरानी प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। वर्ष 2019 में पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ 'पेगासस' के इस्तेमाल को लेकर भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे।
 - 'रिपोर्टर्स वदिउट बॉर्डर्स' द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (World Press Freedom Index) में वर्ष 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को 142वें स्थान पर रखा गया है। नशिय ही प्रेस को अभिव्यक्ति और गोपनीयता के संबंध में अधिकाधिक सुरक्षा की आवश्यकता है।
 - गोपनीयता और स्वतंत्र अभिव्यक्ति ही अच्छी रिपोर्टिंग को संभव बनाती है। वे वैध रिपोर्टिंग के वरिद्ध नशिय और सरकारी प्रतिशोध की धमकियों से पत्रकारों की रक्षा करती हैं।
- **नजिता के अधिकार के वरिद्ध:** किसी नगिरानी प्रणाली का अस्तित्व मात्र नजिता के अधिकार और संवधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत प्रदत्त क्रमशः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित करता है।
 - नागरिकों के अंदर यह भय कि उनका ईमेल सरकार द्वारा पढ़ा जा रहा है, जो कि अपरंपरागत विचारों को व्यक्त करने, सुनने और चर्चा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है।
 - नजिता के अभाव में पत्रकारों की सुरक्षा, वशिषकर उन पत्रकारों की जिनकी रिपोर्ट्स सरकार की आलोचना करती है और उनके स्रोतों/सूत्रों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।
- **सत्तावादी शासन:** नगिरानी व्यवस्था सरकारी कार्यकरण में सत्तावाद के प्रसार को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह कार्यपालिका को नागरिकों पर

अधिक मात्रा में अपनी अधिकाधिक शक्ति का प्रयोग करने और उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करने की अनुमति देती है।

- **सम्यक प्रक्रिया के वरिद्ध:** पूरी तरह से कार्यपालिका के नियंत्रण में की जाने वाली नगिरानी संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के प्रभाव को सीमित करती है क्योंकि इसे गुप्त रूप से अंजाम दिया जाता है।

इस प्रकार, प्रभावित व्यक्ति अपने अधिकारों का उल्लंघन साबित कर सकने में असमर्थ रहता है। यह न केवल सम्यक या निर्धारित प्रक्रिया के आदर्शों और शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का उल्लंघन करती है, बल्कि के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में अनिवार्य कथि गए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के भी वरिद्ध जाती है।

आगे की राह

- **न्यायपालिका द्वारा नरीक्षण:** 'वधिका सम्यक प्रक्रिया' के आदर्श को संतुष्ट करने के लिये शक्तियों के प्रभावी पृथक्करण को बनाए रखने हेतु और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों एवं प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये न्यायिक नरीक्षण (Judicial Oversight) की आवश्यकता है।
 - केवल न्यायपालिका ही यह तय करने के लिये सक्षम हो सकती है कि नगिरानी के विशिष्ट उदाहरण अनुपातिक हैं या नहीं अथवा नागरिकों के लिये कम दुःसह विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं और न्यायपालिका ही सरकार के उद्देश्यों की आवश्यकता और प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन बनाए रख सकती है।
 - सामान्य रूप से नगिरानी प्रणालियों पर न्यायिक नरीक्षण की आवश्यकता है और पेगासस हैकगि की न्यायिक जाँच भी आवश्यक है, क्योंकि लक्षित नंबरों के लीक हुए डेटाबेस में सर्वोच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश का फोन नंबर भी शामिल है जो भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रश्नगत करता है।
- भारत में नगिरानी व्यवस्था में सुधार समय की माँग है और वस्तुतः नगिरानी ढाँचे में व्यापक सुधार की आवश्यकता लंबे समय से अपेक्षित रही है।
 - नगिरानी के संबंध में न केवल मौजूदा सुरक्षा ढाँचा कमजोर है, बल्कि भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा संरक्षण से संबंधित प्रस्तावित विधान भी नगिरानी के मुद्दे पर विचार करने में विफल रहा है जबकि इसने सरकारी अधिकारियों के लिये व्यापक छूट का प्रावधान कर रखा है।
- प्रणाली में वृहत पारदर्शिता की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में सरकारी एजेंसियों सरकार के अतिरिक्त किसी और के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रखती।
- इसलिये वर्तमान बहस केवल इस बारे में नहीं है कि 'नगिरानी व्यवस्था हो या न हो', बल्कि इस बारे में भी है कि कैसे, कब और किस तरह की नगिरानी की अनुमति हो।
- यदि लक्ष्य (जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा) मूल अधिकारों के मामूली अतिक्रमण से प्राप्त किया जा सकता हो तो सरकार संवैधानिक रूप से उस उपाय को अपनाने के लिये बाध्य है जहाँ वास्तव में न्यूनतम अतिक्रमण या उल्लंघन शामिल हो।
- भारतीय नगिरानी व्यवस्था में लाए जाने वाले सुधारों में नगिरानी की नैतिकता (Ethics of Surveillance) को संलग्न किया जाना चाहिये जो नगिरानी के नियोजन के तरीकों के नैतिक पहलुओं पर विचार करता है।

नषिकर्ष

यह विश्व भर में इस मामले पर विचार करने का भी उपयुक्त समय है जहाँ एक आक्रामक और हस्तक्षेपकारी राज्य द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नगिरानी तंत्र के उपयोग के वरिद्ध मौलिक अधिकारों की रक्षा पर लगातार तेज़ बहसें जारी हैं।

अभ्यास प्रश्न: नगिरानी स्वयं में- चाहे वह कानून के प्रावधान के तहत की जा रही हो या इसके बिना- नागरिकों के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। टपिपणी कीजिये।